



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 18, संख्या 22.

31 मई 2003

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2002	2003		घट-बढ़	
	24 मई	16 मई	23 मई #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	2,62,720	2,97,392	2,96,346	-1,046	33,626
संचलन में नोट	2,62,675	2,97,341	2,96,308	-1,033	33,633
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	45	51	39	-12	-6
जमाराशियां					
केन्द्र सरकार	124	330	101	-229	-23
राज्य सरकार	211	700	41	-659	-170
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	74,166	72,823	65,392	-7,431	-8,774
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,723	1,721	1,686	-35	-37
अन्य बैंक	3,644	4,657	4,446	-211	802
अन्य	5,256	6,297	6,106	-191	850
अन्य देयताएं	1,16,631	1,34,512	1,35,811	1,299	19,180
कुल देयताएं / आस्तियां	4,64,475	5,18,433	5,09,928	-8,505	45,453
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	2,58,161	3,57,463	3,63,438	5,975	1,05,277
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	15,333	16,048	16,048	—	715
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,53,884	1,17,374	99,561	-17,813	-54,323
ऋण और अग्रिम					
केन्द्र सरकार	11,887	8,857	8,854	-3	-3,033
राज्य सरकारें	4,218	1,406	4,032	2,626	-186
नाबार्ड	5,506	4,316	4,569	253	-937
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,827	11	1	-10	-2,826
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	42	30	-12	—
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	2,371	1,223	1,238	15	-1,133
खरीदे और भुनाये गये बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	4,373	4,373	4,473	100	100
अन्य आस्तियां	5,885	7,322	7,685	363	1,800

⁽¹⁾ विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गयी राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किये गये निवेश शामिल हैं। ⁽²⁾ 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। ⁽³⁾ इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भण्डार

मद	23 मई 2003 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2003 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2002 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भण्डार	3,79,492	80,816	5,955	1,591	21,212	5,388	41,143	10,371	1,05,953	25,001
जिसमें से :										
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,63,438	77,426	5,975	1,596*	21,962	5,536	41,664	10,432	1,05,277	24,751
(ख) स्वर्ण	16,048	3,389	—	—	-737	-145	-494	-55	715	258
(ग) विशेष आहरण अधिकार	6	1	-20	-5	-13	-3	-27	-6	-39	-8
जापान मद : आरटीपी **	3,295	702	23	8	105	30	114	40	230	77

* : अ.डा. के रूप में दर्शायी गयी विदेशी मुद्रा आस्तियों में भण्डार में रखी गयी अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : विदेशी मुद्रा भण्डार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास रखे भारत के प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) शामिल नहीं है। आइएमएफ के साथ वित्तीय लेनदेन योजना के अंतर्गत भारत के लेनदेनों तथा साथ ही रुपया और अमरीकी डालर की तुलना में एसडीआर विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण आरटीपी में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	16 मई 2003 को बकाया #	घटबढ़				
		पखवाड़ा	अब तक के वित्त वर्ष		वर्ष-दर-वर्ष	
			2002-2003	2003-2004	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	41,921	506	6,171	1,470	-11,344	4,321
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	18,886	2,695	410	-567	-3,097	-1,774
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	2,592	74	-185	300	414	554
अन्यों के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां@	13,21,752	-1,961 (-0.1)	75,617 (6.9) [7.1]	41,176 (3.2) [3.3]	1,81,110 (18.1) [19.0]	1,42,775 (12.1) [12.6]
मांग	1,73,398	-4,641	-883	4,558	11,272	21,233
मीयादी @	11,48,354	2,680	76,500	36,619	1,69,838	1,21,542
उधार ⁽³⁾	15,911	349	6,709	3,288	7,413	6,174
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1,56,286	24,548	-4,916	27,338	15,194	49,319
रिजर्व बैंक से उधार	11	—	-774	-68	-1,930	-2,831
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास शेष	80,787	-8,818	10,205	15,447	1,474	1,935
पास में नकदी	7,964	-145	489	959	457	1,230
रिजर्व बैंक के पास शेष	72,823	-8,673	9,716	14,488	1,017	705
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	17,760	-946	-246	110	-1,372	12
मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	27,743	1,874	1,543	-4,946	-6,457	-424
बैंकों को अग्रिम	6,826	1,408	630	-280	1,520	624
अन्य आस्तियां	2,665	-8	-326	167	272	318
निवेश⁽⁵⁾	5,76,685	13,912	20,110	28,368	72,661	1,18,306
सरकारी प्रतिभूतियां	5,49,410	13,659	20,528	27,594	76,301	1,17,706
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	27,275	253	-418	774	-3,640	600
बैंक ऋण	7,31,140	-119	50,954	5,772	1,21,878	90,464
खाद्य ऋण	49,277	(—)	(8.6)	(0.8)	(23.5)	(14.1)
खाद्येतर ऋण	6,81,863	-645	4,815	-202	12,357	-9,516
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	6,85,913	681	50,049	8,047	1,20,667	88,258
देशी बिल - खरीदे गये	5,712	-91	-269	-101	-506	949
भुनाये गये ⁽⁶⁾	19,436	-1,127	980	-1,178	377	173
विदेशी बिल - खरीदे गये	9,603	90	-102	82	-271	617
भुनाये गये	10,476	328	296	-1,077	1,610	466
नकद-जमा अनुपात	6.11					
निवेश-जमा अनुपात	43.63					
ऋण-जमा अनुपात	55.32					

@ : इसमें 28 अगस्त 1998 से रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड से हुए 17,945 करोड़ रुपये के आगम तथा 17 नवम्बर 2000 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट से हुए 25,662 करोड़ रुपये के आगम भी शामिल हैं। इटैलिक में दिये गये आंकड़े रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट को छोड़कर निवल राशियों में हुआ प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिये गये उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना सम्भव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्यों के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, आइडीबीआई, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिये गये निवेश एसएलआर प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिये गये अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित अवधि में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

4. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

मद / सप्ताहांत	2002	2003					
	17 मई	11 अप्रैल	18 अप्रैल	25 अप्रैल	2 मई	9 मई	16 मई
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.50	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
बैंक दर	6.50	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.00-12.00	10.75-11.50	10.75-11.50	10.75-11.50	10.75-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50
जमा दर ⁽⁴⁾	7.00-8.25	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.00	5.25-6.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गये उधार	5.75/8.25	1.75/5.25	1.00/5.50	2.00/5.15	2.00/5.25	2.50/5.10	1.80/5.20
- दिये गये उधार	6.00/8.40	1.75/5.25	2.00/6.75	2.00/5.10	1.50/5.30	2.00/5.10	1.80/5.50

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच मुख्य बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के लिए प्रमुख बैंकों की जमा दर। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों का 90-95 प्रतिशत आ जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

मद	2003 - 2004			2002 - 2003		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2003			2002		
	21 मार्च	16 मई		22 मार्च	17 मई	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	7,25,368	7,31,140	5,772 (0.8)	5,89,723	6,40,676	50,954 (8.6)
अ. खाद्य ऋण	49,479	49,277	-202	53,978	58,793	4,815
आ. खाद्येतर ऋण	6,75,888	6,81,863	5,974 (0.9)	5,35,745	5,81,883	46,138 (8.6)
2. निवेश	93,036	87,349@	-5,686	81,000	90,531 +	9,531
अ. वाणिज्यिक पत्र	4,258	3,363	-896	8,497	7,412	-1,085
आ. निम्न द्वारा जारी शेयर (क+ख)	9,017	9,073	56	5,914	9,566	3,652
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1,431	1,443	12	1,587	1,553	-34
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7,586	7,631	44	4,327	8,013	3,686
इ. निम्न द्वारा जारी बाण्ड/ डिबेंचर (क+ख)	79,760	74,913	-4,847	66,589	73,553	6,964
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	46,633	45,991	-642	39,520	40,871	1,351
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	33,127	28,922	-4,205	27,069	32,682	5,613
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाये गये बिल				906	371++	-535
4. कुल (1आ+2+3)	7,68,924	7,69,212	288	6,17,650	6,72,784	55,134

@ : 2 मई 2003 तक.

+ : 3 मई 2002 तक.

++ : 30 अप्रैल 2002 तक.

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांख्यिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

4. वित्त वर्ष 2003-04 के लिए पुनःभुनाये गये बिलों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमियम

विदेशी मुद्रा		2002		2003					2002		2003				
		24 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई	24 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)							विदेशी मुद्रा प्रति रु. 100@ (मध्य दरों पर आधारित)								
अमरीकी डालर		49.0100	47.0600	46.9400	46.7600	46.9100	46.9400								
यूरो		45.1100	55.0600	54.7700	54.8000	54.5800	54.8100								
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)															
अमरीकी डालर	{	खरीद 49.0000	47.0550	46.9350	46.7800	46.8900	46.9300	2.0404	2.1249	2.1304	2.1386	2.1317	2.1304		
		बिक्री 49.0100	47.0650	46.9450	46.7900	46.9000	46.9400								
पौण्ड स्टर्लिंग	{	खरीद 71.2450	76.7150	76.6125	76.7900	76.5200	76.5675	1.4034	1.3024	1.3051	1.3025	1.3057	1.3052		
		बिक्री 71.2700	76.7575	76.6575	76.8150	76.5650	76.6100								
यूरो	{	खरीद 45.1000	55.1025	54.7175	54.8600	54.4900	54.8000	2.2168	1.8162	1.8258	1.8248	1.8322	1.8245		
		बिक्री 45.1275	55.1325	54.7425	54.8900	54.5225	54.8250								
100 येन	{	खरीद 39.2075	40.8700	40.0575	40.1075	39.8225	40.0025	255.00	244.85	249.61	249.46	250.83	249.93		
		बिक्री 39.2275	40.8975	40.0750	40.1325	39.8375	40.0275								
अमरीकी डालर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)															
1 - माह		5.88	1.02	0.51	0.51	0.77	1.28								
3 - माह		6.28	1.02	0.43	0.43	0.68	1.02								
6 - माह		6.33	0.76	0.34	0.34	0.47	0.98								

@ : ये दरें अमरीकी डालर के लिए रिजर्व बैंक की संदर्भ दर और परस्पर लेनदेन मुद्रा भाव की मध्य दरों पर आधारित हैं। 29 जनवरी 1998 से लागू ये दरें रिजर्व बैंक द्वारा घोषित हैं।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टाक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		पखवाड़ा		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च.#	16 मई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	17,24,578 [16,94,907]	17,87,659	7,262	0.4	96,038 [54,238]	6.4 [3.6]	63,081	3.7	2,26,538 [1,84,738]	16.5 [13.5]	1,91,618	12.0
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	2,71,662	2,93,685	9,451	3.3	19,848	8.2	22,023	8.1	32,607	14.3	32,437	12.4
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	1,96,473	2,00,964	-4,626	-2.3	-1,009	-0.6	4,491	2.3	12,959	7.9	23,688	13.4
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	12,53,169 [12,23,498]	12,90,316	2,720	0.2	77,732 [35,932]	7.2 [3.3]	37,147	3.0	1,81,615 [1,39,815]	18.7 [14.4]	1,35,114	11.7
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,273	2,694	-284	-9.5	-534	-18.7	-579	-17.7	-642	-21.7	378	16.3
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	6,74,352	7,14,091	11,091	1.6	42,046	7.2	39,739	5.9	83,554	15.3	85,578	13.6
(क) रिजर्व बैंक	1,20,102	1,26,876	-2,582	-2.0	16,887	11.1	6,775	5.6	-1,426	-0.8	-42,188	-25.0
(ख) अन्य बैंक	5,54,250	5,87,215	13,673	2.4	25,160	5.8	32,964	5.9	84,979	22.7	1,27,767	27.8
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	9,04,489	9,12,680	-237	—	54,509	7.2	8,192	0.9	1,25,585	18.3	1,01,907	12.6
(क) रिजर्व बैंक	3,048	2,923	-71	-2.4	-972	-16.4	-125	-4.1	-6,351	-56.2	-2,033	-41.0
(ख) अन्य बैंक	9,01,440	9,09,757	-166	—	55,481	7.4	8,317	0.9	1,31,936	19.6	1,03,940	12.9
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,99,235	4,14,484	6,026	1.5	4,623	1.5	15,249	3.8	65,731	25.9	95,129	29.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	6,910	6,910	—	—	17	0.3	—	—	895	16.3	526	8.2
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं	2,60,407	2,60,506	9,618	3.8	5,157	3.1	99	—	49,226	41.1	91,522	54.2
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,26,533	1,29,647	2,457	1.9	11,146	11.0	3,115	2.5	27,156	31.9	17,282	15.4

@ : इसमें रिसर्जेंट इंडिया बाण्ड के माध्यम से 28 अगस्त 1998 से प्राप्त रु.17,945 करोड़ और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के माध्यम से 17 नवम्बर 2000 से प्राप्त रु.25,662 करोड़ की राशि शामिल है।

[] में दिये गये आंकड़ों में 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल नहीं है।

31 मार्च 2003 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी से पहले की हैं।

8. प्रारक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		सप्ताह		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	23 मई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रारक्षित मुद्रा	3,68,931	3,77,244	-8,902	-2.3	12,869	3.8	8,313	2.3	40,213	12.9	26,404	7.5
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	2,82,312	3,03,217	-1,033	-0.3	18,084	7.2	20,906	7.4	32,997	14.0	34,159	12.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा	83,346	71,524	-7,677	-9.7	-4,615	-5.5	-11,822	-14.2	7,887	11.0	-8,008	-10.1
(iii) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,273	2,502	-192		-600		-771		-671		253	
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण :	1,20,102	1,12,568	-14,308	-11.3	17,521	11.5	-7,533	-6.3	2,911	1.7	-57,131	-33.7
जिसमें से - केन्द्र को	1,16,015	1,08,577	-17,593		24,309		-7,437		2,657		-57,116	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - जिसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	10,208	8,861	347	4.1	-3,020	-18.1	-1,348	-13.2	-7,825	-36.4	-4,796	-35.1
	7,160	5,823	232		-1,128		-1,338		-1,286		-3,798	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,58,244	3,79,468	5,976	1.6	9,507	3.6	21,225	5.9	72,480	36.1	1,05,992	38.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	6,910	6,910	—		17		—		895		526	
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,26,533	1,30,564	916		11,157		4,031		28,248		18,187	

31 मार्च 2003 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी से पहले की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

च.समा.सु. तारीख	रेपो/रिरेपो अवधि (दिन)	रेपो						रिवर्स रेपो					प्रणाली में डाली (+)/से निकाली गयी (-) निवल चलनिधि (11-6)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)			
		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 मई 2003	1	36	16,155	36	16,155	5.00	—	—	—	—	—	-16,155	16,155	
19 मई 2003	14	7	8,835	7	8,835	5.00	—	—	—	—	—	-8,835	24,990	
20 मई 2003	1	35	17,945	35	14,356	5.00	—	—	—	—	—	-14,356	23,191	
21 मई 2003	1	29	12,495	29	12,495	5.00	—	—	—	—	—	-12,495	21,330	
22 मई 2003	1	37	19,270	37	19,270	5.00	—	—	—	—	—	-19,270	28,105	
23 मई 2003	3	41	23,125	41	23,125	5.00	—	—	—	—	—	-23,125	31,960	

@ : रिवर्स रेपो को घटाकर। ' — ' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. 91-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003														
1 अक्तू.	4 अक्तू.	250	24	483	600	19	250	600	—	—	850	98.58	5.7618	5,150
1 जन.	3 जन.	1,000	49	3,385	400	33	1,000	400	—	—	1,400	98.67	5.4328	7,600
2003-2004														
1 अप्रैल	4 अप्रैल	500	32	950	—	20	500	—	—	—	500	98.66	5.4739	8,727
21 मई	23 मई	500	31	848	—	21	500	—	—	—	500	98.91	4.4898	6,177

* : 14 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार (डिवाल्वमेंट) की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

टिप्पणी : एक समान मूल्यों पर नीलामी 6 नवम्बर 1998 से शुरू की गई। 11 दिसंबर 2002 से नीलामी का फार्मेट बहुविध मूल्य पर नीलामी में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. 364-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+ 10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा. व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003														
1 अक्टू.	4 अक्टू.	1,000	42	1,760	—	29	1,000	—	—	—	1,000	94.49	5.8425	23,120
8 जन.	10 जन.	1,000	51	2,245	—	20	1,000	—	—	—	1,000	94.90	5.4074	24,870
2003-2004														
1 अप्रैल	4 अप्रैल	1,000	55	2,210	—	19	1,000	—	—	—	1,000	94.82	5.4964	26,126
13 मई	17 मई	1,000	61	2,105	—	28	1,000	—	—	—	1,000	95.48	4.7669	26,126

* : 19 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

\$: 2 जून 1999 की नीलामी से प्रभावी, अप्रतिस्पर्धी बोलियों की अनुमति दी गई।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भारि बैंक के पास संचयी नकद शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16 मई 2003	3 मई	4 मई	5 मई	6 मई	7 मई	8 मई	9 मई	10 मई	11 मई	12 मई	13 मई	14 मई	15 मई	16 मई	
	83,988	1,67,977	2,37,990	2,99,135	3,60,491	4,29,005	4,93,260	5,57,505	6,21,750	6,90,367	7,57,285	8,29,923	9,03,149	9,76,364	
30 मई 2003	17 मई	18 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई	24 मई	25 मई	26 मई	27 मई	28 मई	29 मई	30 मई	
	78,335	1,56,670	2,24,231	2,91,529	3,60,715	4,25,682	4,90,788								

टिप्पणी : आंकड़े पखवाड़े के दौरान संचयी आधार पर भारि बैंक के पास रखी जाने वाली अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद से संबंधित हैं।

13. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
5 अप्रैल 2002	1,474	144	5.00 — 10.88
12 जुलाई 2002	1,312	29	5.21 — 9.10
4 अक्टू. 2002	1,270	169	5.20 — 8.25
10 जन. 2003	1,199	59	4.37 — 6.61
21 मार्च 2003	908	10	5.00 — 7.10
4 अप्रैल 2003	891	20	5.25 — 7.40

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दायरा।

14. कम्पनियों द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	व्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जुलाई 2002	7,709	1,231	6.90 — 9.50
15 अक्टू. 2002	8,589	1,134	6.13 — 8.25
15 जन. 2003	8,645	886	5.70 — 7.50
15 अप्रैल 2003	5,839	752	5.25 — 8.15
30 अप्रैल 2003	5,994	1,045	5.05 — 9.85
15 मई 2003	6,396	717	5.05 — 8.50

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू विशिष्ट वार्षिक बढ़ा दर का दायरा।

15. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2002	2003		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		11 मई	15 मार्च*	10 मई #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	162.8	171.5	172.4	—	-0.2	0.3	5.9
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	169.0	178.4	180.2	0.2	0.4	1.3	6.6
(i) फल और सब्जियां	2.92	186.4	185.2	193.5	0.1	-0.4	6.3	3.8
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक	14.23	230.4	252.7	249.3	—	-2.7	-2.7	8.2
विनिर्मित उत्पाद	63.75	145.6	151.0	152.6	—	0.5	1.0	4.8
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	142.6	129.3	130.2	3.3	3.7	3.8	-8.7
ii) खाद्य तेल	2.76	122.1	150.1	155.1	1.1	1.6	3.1	27.0
iii) सीमेंट	1.73	145.3	148.1	148.4	0.1	0.3	0.9	2.1
iv) लोहा और इस्पात	3.64	137.6	150.2	150.2	—	—	—	9.2

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

16. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2002	2003				
	23 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	3114.05	3043.89	3062.92	3057.09	3040.79	3049.84
एनएसईपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	1026.75	966.55	971.55	968.00	963.25	967.90

+ : बाजार बंद।

17. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपये)

	निम्न को समाप्त सप्ताह						
	11 अप्रैल 2003	18 अप्रैल 2003	25 अप्रैल 2003	2 मई 2003	9 मई 2003	16 मई 2003	23 मई 2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिये गये उधार	4,530	3,907	3,887	2,568	3,974	3,975	4,168
ख) दिये गये ऋण	5,413	4,475	3,236	2,511	4,812	5,630	5,417
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिये गये उधार	6,569	4,498	5,120	4,282	6,234	6,556	6,044
ख) दिये गये ऋण	150	140	118	236	63	167	114
3. बैंकेतर संस्थाएं							
क) लिये गये उधार	4,582	3,359	5,149	3,521	4,509	3,163	3,950
ख) दिये गये ऋण							
4. कुल							
क) लिये गये उधार	11,099	8,405	9,007	6,850	10,208	10,531	10,212
ख) दिये गये ऋण	10,145	7,974	8,503	6,268	9,384	8,960	9,481

* : इनमें प्रतिभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों के 90-95 प्रतिशत आंकड़े शामिल हैं।

ये आंकड़े सप्ताह के लिए दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

18. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को समाप्त सप्ताह					
	18 अप्रैल 2003	25 अप्रैल 2003	2 मई 2003	9 मई 2003	16 मई 2003	23 मई 2003
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां	25,851	61,549	44,070	68,876	34,308	86,637
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	118	391	323	408	187	413
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	955	2,487	1,326	942	580	1,605
घ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,930	3,966	2,358	1,986	1,948	3,997
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	6	—	8	49	22	82

@ : रेपो लेनदेनों को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

19. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डालर)

निम्नलिखित तारीख को स्थिति	वणिज्य						अंतर-बैंक					
	विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा			विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	स्वैप	वायदा	हाजिर	स्वैप	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
14 अप्रैल 2003+												
15 अप्रैल 2003+												
16 अप्रैल 2003	790	210	14	62	88	36	1030	1206	50	425	326	28
17 अप्रैल 2003	545	193	25	21	57	98	812	1298	64	428	295	41
18 अप्रैल 2003+												
21 अप्रैल 2003	405	211	23	5	19	26	606	1023	50	167	52	1
22 अप्रैल 2003	349	203	48	30	74	41	730	1065	25	420	278	6
23 अप्रैल 2003	325	296	57	29	62	20	648	1365	33	395	179	2
24 अप्रैल 2003	345	204	111	21	50	39	614	1551	42	409	197	6
25 अप्रैल 2003	304	174	49	7	19	9	559	1180	20	383	133	8
बिक्री												
14 अप्रैल 2003+												
15 अप्रैल 2003+												
16 अप्रैल 2003	547	163	75	83	69	39	1378	1188	54	433	257	30
17 अप्रैल 2003	485	108	85	21	40	113	863	1291	72	407	288	44
18 अप्रैल 2003+												
21 अप्रैल 2003	434	43	103	5	19	10	642	893	73	186	65	1
22 अप्रैल 2003	380	134	45	47	55	38	724	1037	98	426	224	4
23 अप्रैल 2003	347	133	100	12	83	18	758	1225	39	386	176	4
24 अप्रैल 2003	380	154	80	20	51	53	705	1248	54	414	227	5
25 अप्रैल 2003	260	104	73	12	22	9	578	1009	11	374	153	7

एफ सी वाय : विदेशी मुद्रा ।

आई एन आर : भारतीय रुपया ।

+ : बाजार बंद ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिज्य और अंतर-बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

20. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपये)

	समाप्त सप्ताह					
	19 अप्रैल 2003	26 अप्रैल 2003	3 मई 2003	10 मई 2003	17 मई 2003	24 मई 2003
1	2	3	4	5	6	7
राशि	36.66	59.35	101.27	375.60	44.40	326.76

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

21. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपये)

धारक	23 मई 2003				कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल			कुल (2+3+4)	सप्ताह की तुलना में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	-1,019
बैंक	—	3,142	20,552	23,695	-727	-5,199
राज्य सरकारें	3,953	300	—	4,253	-2,863	-2,140
अन्य	291	2,735	5,574	8,600	2,216	3,446

22. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार - 2003-04

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालन में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपये में)

	जुटायी गयी सकल राशि			जुटायी गयी निवल राशि		
	2003-2004 (23 मई 2003 तक)	2002-2003 (24 मई 2002 तक)	2002-2003	2003-2004 (23 मई 2003 तक)	2002-2003 (24 मई 2002 तक)	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	35,000	37,000	1,25,000	27,713	30,983	97,580
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	5,000	14,018	36,175			
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	169	5,316	53,780			
	—	—	—			

23. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	16 मई 2003 को समाप्त सप्ताह			23 मई 2003 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेन देन						
1. सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2003-04	245	4.9198	4.9543	343	4.8949	5.1836
2004-05	40	4.9328	4.9471	151	4.8681	5.0008
2005-06	105	5.0581	5.1317	150	5.0425	5.1041
2006-07	30	5.1609	5.2515	390	5.1133	5.3834
2007-08	75	5.3735	5.5714	160	5.2624	5.5048
2008-09	1,083	5.4508	5.9427	2,482	5.3109	5.9300
2009-12	3,141	5.6120	6.1388	6,738	5.4527	6.0630
2012-13	2,165	5.8386	6.0370	4,622	5.7416	6.0109
2013 से आगे	10,269	5.8760	6.4628	28,282	5.0900	6.4399
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	93	6.3657	6.5284	207	6.3722	6.4523
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिनों तक	32	3.4411	—	1	—	—
ख) 15 - 91 दिन	263	4.3378	4.5675	863	4.3639	4.6871
ग) 92 - 182 दिन	59	4.4877	4.5874	276	4.4877	4.6373
घ) 183 - 364 दिन	910	4.4876	4.7968	1,661	4.5874	4.7669
II. भा.रि.बैं. : बिक्री	22			82		
: खरीद	—			—		
III. रेपो कारोबार ₹ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दर (% वार्षिक)		राशि	दर (% वार्षिक)	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	5,396	3.50 (1)	6.40 (7)	8,478	3.00 (1)	6.40 (14)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	65	4.50 (5)	5.05 (5)	115	4.25 (1)	4.30 (3)
4. 364 - दिवसीय खजाना बिल	681	3.00 (1)	5.05 (5)	1,090	4.10 (1)	4.50 (4)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो ₹^	31,885	5.00	—	94,236	5.00	—
: रिवर्स रेपो !	—	—	—	—	—	—

@ : भा.रि.बैं., मुंबई के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना के अनुसार, जो वर्तमान में देश के कुल कारोबार का लगभग 98 प्रतिशत है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

₹ : कारोबार का पहला चरण (फ्रंट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) मानकेतर आकार समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाये।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक 2003 के लिए वार्षिक शुल्क भारत में **₹.400** (डाक व्यय सहित) और विदेश के लिए **80 अमरीकी डालर** (हवाई डाक प्रभार सहित) है। एक प्रति का मूल्य **₹.8/-** है।

श्री देव प्रसाद रथ द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 00 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा प्रिंटराइट, 24-बी, अंबालाल दोशी मार्ग, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।

पंजीकरण सं.आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

टेक/47-400 / एमबीआइ / 2003-05